




1. इन भूखण्डों पर कारखानों की स्थापना संभवित ही नहीं है, उनका विकास कारखानों की स्थापना करने के परवर्त ही किये जाने का विचार किया गया।
 2. भूखण्ड 11, 9 व 12 को 40 फीट रोडवैड में प्रस्तावित होने से कारण अस्वीकार करने का निर्णय किया गया। भूखण्ड 11 व 12 को रोडवैड में आने वाले भाग को छोड़कर टोप भाग को विस्तार परियोजना के अंतर्गत ही अनुमोदित किये जाने का निर्णय किया गया।
 3. रोडवैड की सभी आवासीय सड़कों को रोडवैड 30 फीट किये जाने का निर्णय किया गया।
 4. रोडवैड के अन्तर्गत रोडवैड में बाहर स्थित सभी आवासीय में सभी दरवाजे वाले भूखण्डों को विस्तारित नहीं किये जाने का निर्णय किया गया।


 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जेएन-6


 सहायक अभियंता
 जेएन-6




मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसूची में उपरोक्त भूखण्डों की विनियमन विधी

| | | |
|-------------------------------------|------|-----|
| 1. नती / आंशिक निर्मित भूखण्ड - | B | 85 |
| 2. बाह्य क्षेत्रीय निर्मित भूखण्ड - | C.W. | 24 |
| 3. खाली भूखण्ड - | V | 20 |
| कुल भूखण्ड - | | 139 |

PROPOSED AREA

| क्रमिक | भू उपयोग | क्षेत्रफल | प्रतिशत |
|--------|----------|-----------------|---------|
| | आवासीय | 23587.92 SQ.YDS | 70.37% |
| | सड़क | 9929.14 SQ.YDS | 29.63% |
| | कुल | 33517.06 SQ.YDS | 100.00% |

योजना की मंजूरी के लिए, सभी शर्तों पर मास्टर विकास योजना 2011 की सुझाई भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल सुझाई से संबंधित पूर्ण ग्रीन पार मिथी योजना मॉडलिंग में अतिरिक्त की गई है।


 वास्तुशिल्प का नाम
 रजिस्ट्रेशन नं०

योजना की पूरी की गठनगत अधिसूचना की धारा 40 से भी संबंधित एवं मंजूरी पर अतिरिक्त प्रस्तावित में इलाक़ा नं० 10 योजना की पूर्ण भूमि प्राधिकरण में स्थिति हो चुकी है।

नाम
 तहसीलवार उपखण्ड-जोन

बी.टी.जी. / बी.टी.एस. सी.डी. ब्लॉक संख्या
 की अनुसूचना में योजना मानक स्थानों का जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :-
 SUBHASH SINDHI HOUSING CO - OPE

NAME OF SCHEME :-
 EXITING PLAN OF GREEN TOWN SCHEME

| | | |
|-------------------------|---------------|--------|
| ZONE NO. 6 | SECTOR NO. 16 | |
| SCALE 1" = 50' DRG. NO. | | |
| A.T.P. ZONE | D.T.P. | S.T.P. |

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR